



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2007/पौष 3, 1929

No. 378]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2007/PAUSA 3, 1929

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2007

सं. 1/55/2000-डीसीएच/समन्वय.—भारत सरकार के संकल्प संख्या 1/55/2000-डीसीएच/समन्वय/एआईएचबी दिनांक 28 अगस्त, 2006, 18 अक्टूबर, 2006, 30 अक्टूबर, 2006, 14 नवम्बर, 2006, 22 नवम्बर, 2006, 5 दिसम्बर, 2006, 13 दिसम्बर, 2006, 19 दिसम्बर, 2006, 29 दिसम्बर, 2006, 5 जनवरी, 2007, 22 जनवरी, 2007, 12 फरवरी, 2007, 28 फरवरी, 2007, 6 मार्च, 2007, 26 मार्च, 2007, 20 अप्रैल, 2007, 18 मई, 2007, 12 जून, 2007, 24 जुलाई, 2007, 31 जुलाई, 2007, 14 अगस्त, 2007, 7 सितम्बर, 2007, 14 सितम्बर 2007, 24 अक्टूबर 2007, 1 नवम्बर, 2007 और 8 नवम्बर, 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है :

श्री अरविंद कुमार त्यागी,  
मकान नं. 9, दयानंद नगरी,  
ज्वालापुर, हरिद्वार, (उत्तरांचल)

बोर्ड के उपर्युक्त नव-नियुक्त सदस्य हथकरघा क्षेत्र के लिए समग्र विकास कार्यक्रम बनाने में सरकार को सलाह देंगे। उपर्युक्त सदस्यों की पदावधि बोर्ड की समयावधि के समवर्ती अर्थात् 28 अगस्त, 2006 से दो वर्ष की होगी।

इसे माननीय वस्त्र मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं विकास आयुक्त

5061 GI/2007

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner for Handlooms)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th December, 2007

No. 1/55/2000-DCH/Coordn.—In partial modification of Government of India's Resolution No. 1/55/2000-DCH/Coordn/AIHB dated 28th August, 2006, 18th October, 2006, 30th October, 2006, 14th November, 2006, 22nd November, 2006, 5th December, 2006, 13th December, 2006, 19th December, 2006, 29th December, 2006, 5th January, 2007, 22nd January, 2007, 12 February, 2007 and 28th February, 2007, 6th March, 2007, 26th March, 2007, 20th April, 2007, 18th May, 2007, 12th June, 2007, 24th July, 2007, 31st July, 2007, 14th August, 2007, 7th September, 2007, 14th September, 2007, 24th October, 2007, 1st November, 2007 and 8th November, 2007, the following person has been appointed as Non-Official Member of the All India Handloom Board with immediate effect.

Shri Arvind Kumar Tyagi,  
House No. 9, Dayanand Nagri, Jwalapur,  
Haridwar (Uttaranchal)

The above newly appointed member of the Board would advise the Government in the formulation of overall development programme in the Handloom Sector. The term of office of the above member will be concurrent with the term of the Board i.e. a period of two years from 28th August, 2006.

This issue with the approval of the Hon'ble Minister of Textiles.

B. K. SINHA, Jt. Secy. & Development Commissioner